

AU-1078

M.P.Ed. Semester—I (New Programme) Examination
TEST, MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION
Paper—MPEC-101
(Elective)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note :—(1) Attempt **ALL** questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. What do you mean by Test, Measurement and Evaluation ? Write its importance in Physical Education. 14

OR

Explain criteria for test selection. 14

2. Write on the following tests :

- (a) Indiana Motor Fitness Test 7
 (b) Oregon Motor Fitness Test 7

OR

Write on the following :

- (a) Barrow Motor Ability Test 7
 (b) Newton Motor Ability Test. 7

3. Write on the following test :

- (a) AAHPERD Health Related Fitness Test 7
 (b) Multi-stage Fitness Test (Beep Test). 7

OR

Explain Harvard Step Test in detail. 14

4. Explain the following :

- (a) Bruce Treadmill Test Protocol 7
 (b) Margaria-Kalamen Test. 7

OR

Explain the following :

- (a) Method of Measuring Skin Fold 7
 (b) Method of Measuring Circumference. 7

5. Explain the following skill test :

- (a) Johnson Basketball Test 7
 (b) Friendel Field Hockey Test. 7

OR

Explain the following skill test :

- (a) Russel Lange Volleyball Test 7
 (b) Johnson Soccer Test. 7

AU-1078

M.P.Ed. Semester—I (New Programme) Examination
TEST, MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION
Paper—MPEC-101
(Elective)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व प्रश्न सोडवा

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत

1. परिक्षण, मापन व मूल्यांकनाचा अर्थव्यवत्ता काय बघा हेतो आणि शारीरिक शिक्षणात त्याचा महत्त्व विद्या

14

किंवा

परिक्षण कवणाच्या जमोटाद्या स्पष्ट करा

14

2. खालील परिक्षणावर लिहा :

(अ) इंडियन मोटर फिटनेस टेस्ट

7

(ब) ऑरिगॉन मोटर फिटनेस टेस्ट.

7

किंवा

खालीलवर लिहा :

(अ) बॅरी मोटर ऑबेसिटी टेस्ट

7

(ब) न्युटन मोटर ऑबेसिटी टेस्ट.

7

3. खालील परिक्षणावर लिहा :

(अ) आपाई हेल्थरिलेटेड फिटनेस टेस्ट

7

(ब) मल्टीस्टेज फिटनेस टेस्ट (बीप टेस्ट).

7

किंवा

हार्वर्ड परिक्षणाचा संविस्तर स्पष्ट करा.

14

4. खालीलला स्पष्ट करा :

(अ) ब्रुस डेडमिल टेस्ट प्रोटोकॉल

7

(ब) मारगेरिया-कालेमेस टेस्ट

7

किंवा

खालीलला स्पष्ट करा :

(अ) स्कीन फोल्ड मोजण्याची पद्धती

7

(ब) गोलाई मोजण्याची पद्धती

7

5. खालील कौशल्य परिक्षणाचा स्पष्ट करा :

(अ) जॉन्सन अस्कॉट बॉल टेस्ट

7

(ब) फ्रॅडल फोल्ड हॉकी टेस्ट

7

किंवा

खालील कौशल्य परिक्षणाचा स्पष्ट करा

(अ) रसेल वॉलीबॉल टेस्ट

7

(ब) जॉन्सन मॉकर टेस्ट.

7

VOX—36804

2

(Contd.)

AU-1078

M.P.Ed. Semester—I (New Programme) Examination
TEST, MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION
Paper—MPEC-101
(Elective)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्न हल कीजिये।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं ? शारीरिक शिक्षा में उसका महत्व लिखिये।
14
अथवा
 परीक्षण चयन की कसौटियों को स्पष्ट कीजिये।
14
2. निम्न परीक्षणों पर लिखिये :
 (अ) इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट 7
 (ब) ऑरिगोन मोटर फिटनेस टेस्ट 7
अथवा
 निम्न पर लिखिये :
 (अ) बैरो मोटर अबिलिटी टेस्ट 7
 (ब) न्यूटन मोटर अबिलिटी टेस्ट। 7
3. निम्न परीक्षणों पर लिखिये :
 (अ) ऑफर्ड हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट 7
 (ब) मल्टीस्टेज फिटनेस टेस्ट (बीप टेस्ट)। 7
अथवा
 हार्वर्ड परीक्षणों को विस्तार से स्पष्ट कीजिये।
14
4. निम्न को स्पष्ट कीजिये :
 (अ) ब्रूस ट्रेडमिल टेस्ट प्रोटोकॉल 7
 (ब) मॉरगोरिया — कालेमेन टेस्ट। 7
अथवा
 निम्न को स्पष्ट कीजिये :
 (अ) मेथड ऑफ मेजरिंग स्किन फोल्ड टेस्ट 7
 (ब) गोल्डाई मापने की पद्धति। 7
5. निम्न कौशल्य परीक्षणों को स्पष्ट कीजिये :
 (अ) जॉनसन ऑस्कैट बॉल टेस्ट 7
 (ब) केन्डल फिल्ड हॉकी टेस्ट। 7
अथवा
 निम्न कौशल्य परीक्षणों को स्पष्ट कीजिये :
 (अ) रसेल लेंगे व्हालीबॉल टेस्ट 7
 (ब) जॉनसन सॉकर टेस्ट। 7

